

ith Series, Vol. XVIII—No. 11

Monday, August 14, 1972  
Sravana 23, 1894 (Saka)

# LOK SABHA DEBATES

(Fifth Session)



सत्यमेव जयते



(Vol. XVIII contains Nos. 11—20)

LOK SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI

Price : Rs 2 00

## CONTENTS

[Fifth Series—Vol. XVIII, 5th Session, 1972]

No. 11—Monday, August 14, 1972/Sravana 23, 1894 (Saka)

COLUMNS

### Obituary Reference—

Death of Shrimati Minimata Agamdass Guru . . . . .	1-10
Shrimati Indira Gandhi . . . . .	1-2
Shri Dasaratha Deb . . . . .	2-3
Shri S. M. Banerjee . . . . .	3
Shri G. Viswanathan . . . . .	3-4
Shri Jagannathrao Joshi . . . . .	4
Shri Shyamnandan Mishra . . . . .	4-5
Prof. Madhu Dandavate . . . . .	5
Shri Ebrahim Sulaiman Sait . . . . .	5
Shri Arvind Netam . . . . .	6
Shri R. S. Pandey . . . . .	6-7
Dr. Govind Das . . . . .	7
Shri R. D. Bhandare . . . . .	7-8
Shri Shrikrishna Agarwal . . . . .	8
Shri Ramkanwar . . . . .	8

LOK SABHA

Monday, August 14, 1972/Śravana 23,  
1894 (Saka)

*The Lok Sabha met at Eleven of the  
Clock.*

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER: Honourable members, I have to inform the House of the tragic demise of Shrimati Minimata Agam Dass Guru who passed away in an air crash near Delhi on the night of 11th August 1972, at the age of 56.

Shrimati Agam Dass Guru was a sitting member of Lok Sabha from Janjgir constituency of Madhya Pradesh. She had also been a member of First, Second, Third and Fourth Lok Sabha from 1953 to 1970. She was so calm and gentle and was respected by one and all. Coming from the backward strata of our society, during her long membership of Lok Sabha, she always championed the cause of Harijans, women and depressed classes and spoke for eradication of social evils like the dowry system, child marriage and untouchability. Whenever she took part in the proceedings, she used to impress the House very much by her dedication to her ideals and sincerity in her approach. She was associated with a number of social welfare and educational institutions in her State.

We deeply mourn her loss and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, this is a sad occasion for us all and points once again to the uncertainty of life.

Shrimati Minimata was a fine example of Indian womanhood. It was my privilege to know her closely for many years. Soft-spoken and dignified, simple in her habits, yet firm in her convictions and effective in her work, she was an unflinching champion of the cause of the weak and the downtrodden. She commanded the respect of this House and of the public for her sincerity, her earnestness of purpose and sense of dedication. She had been, as you, Sir, have mentioned, a Member of Parliament for 20 years and was the senior-most woman Member.

Although one of the quieter members, she was articulate on subjects which interested her, and her participation in discussions was always impressive and to the point.

She was equally active in work in her constituency, as regards various problems of Madhya Pradesh, the problems of evils which exist in our society and those of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes all over the country.

Death is always sorrowful but it is specially so on this occasion when it has come so suddenly and in such a gruesome manner. Shrimati Minimata was coming to Delhi to be with us today and tomorrow to join the 25th anniversary functions.

Her demise is a loss to Parliament and to us all. I feel it as a personal loss. We are all deeply grieved and request you, Sir, to convey our condolences to her family.

SHRI DASARATHA DEB (Tripura East): This is a very sad occasion and on behalf of my Party, the Communist Party of India (Marxist) and on my behalf, I fully associate myself with the sentiments of deep sorrow expressed by the Prime Minister and you at the tragic death of Shrimati Minimata Agam Dass Guru, a Member of this House since 1953.

I happen to know Shrimati Minimata very closely as we were neighbours while I was staying in North Avenue

[Shri Dasaratha Deb]

from 1953 to 1961. She was very affectionate to the children also and she worked among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Harijans particularly.

As far as I know, she was a veteran social worker, confining her work mainly to the backward classes people, and her death is a great loss to the country.

I request you to convey our deep condolences to the bereaved family of Shrimati Minimata.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Mr. Speaker, Sir, I knew Shrimati Minimata since the day I entered Parliament in 1957. To me, she was an emblem of simplicity. Her heart bled for the common man, specially for those who are downtrodden and whom society has not given a proper place even today.

She was connected with so many welfare organisations. I remember how when in this House the question of atrocities on Harijan women came up, she reacted. I also remember when less time was given for discussion of the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, though a calm lady, an emblem of patience, she rose to the height and demanded more discussion.

It is most unfortunate she did not meet a natural death. It reminds me of the tragic and untimely death of the Member for Kanpur, the late lamented Shri Hariharnath Shastri, in similar circumstances.

On behalf of my Party and on my own behalf, I express my heartfelt condolences and request you to kindly convey the same to the family of Shrimati Minimata.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): It is a sad occasion that on this 25th anniversary of our independence, we have lost one of our seniormost members.

We have had many occasions to work with Shrimati Minimata in various capacities in the House and outside and in committee meetings. The fact that she was elected for five consecutive terms from the same constituency to this House shows her popularity and influence among the public, particularly the tribal areas.

On behalf of my Party and on my own behalf, I associate myself with the deep sorrow expressed by you and request you to convey our condolences to the bereaved family.

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : जन्मा हुआ व्यक्ति मृत्यु से ही छुटकारा पाता है—यद्यपि यह सत्य है, फिर भी जब अकालिक और दुर्घटना से मृत्यु एकाएक आ जाती है तो वेदना बड़ी तीव्र होती है। 1967 से लेकर मैं भी मध्य प्रदेश से चनकर आने की वजह से मिनिमाता जी को जानने का बहुत बार मझ मौका मिला। स्वभाव से बड़ी सरल, वृत्ति से विनम्र और सादगी की तो मानों परम आदर्श थीं। दलित वर्ग के लिए उन के मन में जो तीव्र भावना थी और जीवन पर्यन्त उन्होंने जो अधिक सेवा की, उस को कोई भुला नहीं सकता। मध्य प्रदेश के लिए तो यह अपूर्णीय क्षति है।

सदन में जो भी भावनाएं प्रकट की गई ह, उन के साथ मैं और मेरे दल को सहमत करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें और आप से भी प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदना पहुंचा दें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बगुसराय) : श्रीमन्, श्रीमति मिनिमाता जी के अकस्मात निधन से संसद को एक बड़ा आघात पहुंचा है। उन के व्यक्तित्व में बड़ी सादगी, शांति एवं गरिमा थी। व आखरी दम तक देहात की सच्ची बेटी बनी रहीं और बहुत दिनों तक दिल्ली में रहने के बावजूद भी उन की सादगी पर दिल्ली की रंगोनियां हावी न हो पाईं। उन के व्यक्तित्व में एक अजीब शान्ति एवं सन्तुलन था और उन के शब्दों से लगता था जैसे शान्ति के शब्द की बन्द बरसती हो। ऐसी सरलता, मैं समझता हूं, बड़ी साधना के बाद कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, जसी सरलता उन के व्यक्तित्व में थी। हम लोग इसीलिये विशेष रूप से इस बात से दुखी हैं कि उन का साथ अब हम लोगों को नहीं मिलेगा।

मैं उन व्यक्तियों में हूँ जो शुरू से ही, जब से वे संसद में आईं, तब से उन के साथ था। मैं उन के पहले भी यहाँ था, वह उस के बाद आईं। 'इस लिये हम लोग, जो उन के बहुत नजदीक में रहे हैं, बहुत दिनों तक अपने व्यक्तिगत जीवन में उन के अभाव का अनुभव करेंगे।

मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से उन की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना ज़ाहिर करता हूँ।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. Speaker, Sir, all death is sad but the pangs of death become more sorrowful when the death comes in such a gruesome manner. Here was a lady who tried to end the tragedy of the life of the socially oppressed men and women, but the tragedy of her life was that the end of her life itself was a tragedy. I am sure that everyone in this House and outside will mourn the loss of this lady who really worked with a constructive spirit of devotion in the traditions that were laid down by the late Kasturba Gandhi.

On behalf of the Socialist Party, I offer my condolences and I wish you to convey the condolences to the members of the bereaved family.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode): Mr. Speaker, Sir, I associate myself with the sentiments of grief and sorrow expressed by yourself, the Prime Minister and other colleagues in this House on the sad demise of Shrimati Minimata in tragic circumstances. We all know very well that she was a lady of admirable qualities; she was dignified, modest and simple and served the depressed and the downtrodden with earnestness and zeal. Her passing away is a great loss not only to the backward classes but to the country as a whole.

I convey to the bereaved family, through you, our deep sympathies, and on my behalf and on behalf of my Group, the Muslim League, I request you to convey our feelings of sorrow and grief to the members of the bereaved family.

श्री अरविंद नेताम (कांकेर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच श्रीमति मिनिमाता नहीं रहीं, उन को दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद मृत्यु से ऐसी क्षति हुई है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन का और मेरा बड़े निकट का सम्बन्ध था और सही मायनों में वह मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की लाडली माता थीं, जिन के आभाव में आज छत्तीसगढ़ अनाथ हो गया है। वह स्वभाव से बड़ी विनम्र, सुगंल और मृदुभाषी थीं।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन की दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : श्रीमन्, मिनिमाता का देहान्त जिस दुर्घटना के माध्यम से हुआ, सहसा विश्वास नहीं होता कि मिनिमाता भोपाल से चलीं और आज संसद में होतीं, लेकिन दुर्घटना का शिकार हो गईं। वह छत्तीसगढ़ की माता मानी जाती थीं। शालीनता, नम्रता उन का आचरण था, लोकप्रियता उन के चरण छूती थी। यद्यपि मृत्यु शरीर का धर्म है, मृत्यु अवश्यम्भावी है, लेकिन जिस दुर्घटना के सन्दर्भ में हमारी छत्तीसगढ़ की मां शिकार हुई और हम उन के शरीर को भी न देख पाये, टुकड़े-टुकड़े हो गया था, थोड़ासा लुंजपंज हो बचा था, उस का संस्कार कल सम्पन्न हुआ।

छत्तीसगढ़ की जनता उन की सेवाओं को कभी विस्मरण नहीं कर सकेगी। मैंने जैसा निवेदन किया था, वह मां थीं, उन का मातृत्व, उन का लोकप्रियता, उन की जनसेवा, आज छत्तीसगढ़ की धरती पुकार-पुकार कर यह अनुभव करती है कि हमारी मां जो हमारी देखभाल करती थी, आज नहीं रही। मिनिमाता केवल राजनीति में ही श्रेष्ठ नहीं थीं, केवल छत्तीसगढ़ की ही मां नहीं थीं, बल्कि सार्वजनिक सुधार की दृष्टि से उन्होंने जो चरण आगे बढ़ाया था, ग्राम्य समाज की प्रगति, उन्नति और उत्कर्ष के लिए जो कार्य उन्होंने किये, आज सतनामी समाज मातृहीन हो गया है। हमारा क्षेत्र और उन का क्षेत्र मिला हुआ है। उन की लोक-

[श्री रामसहाय पांडे]

प्रियता को मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा है। आज अपनी मां को अपने बीच में न पाकर छत्तीसगढ़ को भूमि अनुभव करती है कि हमारी लोकप्रिय मां आज नहीं रहीं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शान्ति और उन के परिवार को धैर्य प्रदान करे।

डा० गोविंद दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, मिनिमाता हमारे मध्य प्रदेश से चुनाकर आई थीं और वे जिस प्रकार यहां चुन कर आती रहीं हैं, उस से उन को लोकप्रियता, साथ ही वे कितनी कर्मठ कार्यकर्त्री थीं, यह बात सिद्ध हो जाती है। हमारे यहां महिलाओं में जागृति यथार्थ में गांधी जी के इस देश के नेतृत्व को वागडोर हाथ में लेने के बाद 1920 से आरम्भ हुई और हर राज्य में उस का असर पहुंचा। हमारे मध्य प्रदेश का जो महा कौशल विभाग है, उस के सार्वजनिक जीवन को स्थिति तो यथार्थ में 1920 के बाद की है। मिनिमाता उस प्रदेश के छत्तीसगढ़, जो एक विशेष कार्यक्षेत्र है, उस से आती थीं। उन के समाज में उनका बहुत आदर था। कांग्रेस में उन का बहुत आदर था, उन्होंने जो लोकप्रियता प्राप्त की, बहुत कम महिलाओं को प्राप्त होती है।

मैं उन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन के पुत्र के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Mr. Speaker, Sir, we deeply mourn the death of Shrimati Minimata, a religious head of the Satnami sect of the Hindu community. It is true that अनिच्छा वत् संखारा but when great souls, who have always served the community, pass away in a tragic manner, we are full of sorrow and we feel that from amongst us we have lost a burning fire and light which used to guide the down-trodden and under-privileged. She was a great social worker, as mentioned by the Prime Minister, and by

you, Sir, and by other hon. Members. But she was calm and unassuming both in this House and outside. But within that calm and unassuming attitude, there was fire constantly burning against injustice. Since she was serving the community her soul is bound to rest in peace. I pay my humble tribute and homage to her.

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल (महासमुन्द) : अध्यक्ष जी, मिनिमाता के अकस्मात् निधन से हमारे देश एवं खासकर छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काफी उदार के कार्य किए थे। वे हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज की गुरु थीं जो दलित वर्ग में आता है। उनका चुनाव क्षेत्र और मेरा चुनाव क्षेत्र दोनों हैं, लगे हुए हैं। मेरा उनसे बड़ा निकट का सम्पर्क रहा है। उनके स्वभाव के कारण हम तो उनके सामने बच्चे थे, इस तरीके से वे प्यार करती थीं। उसी तरीके से अपने क्षेत्र और मेरे क्षेत्र के सभी लोगों से उनका बहुत अच्छा सम्बन्ध रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री रामकंवर (टांक) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11 अगस्त को श्रीमती मिनिमाता की विमान दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है उसके लिए बहुत अधिक शोक प्रकट करता हूँ। श्रीमती मिनिमाता पिछले तबके का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनकी मृत्यु से केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के हरिजन, आदिवासी और गरीब तबके को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। आज इस लोक सभा में उनके न रहने पर मैं बहुत ज्यादा अफसोस प्रकट करता हूँ। प्रधान मन्त्री जी ने उनके प्रति जो भावनाएँ यहां पर व्यक्त की है उनसे साथ अपने को तथा स्वतंत्र पार्टी को सम्बद्ध करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परम गति प्रदान करे।

MR. SPEAKER : As a mark of respect to her memory, the House will stand in silence for a short while.

*Members then stood in silence for a shortwhile*

MR. SPEAKER : In view of the death of Shrimati Minimata under very tragic circumstances, which we all heard with great shock, in view also of the fact that she is one of the oldest members of our Lok Sabha, associated with all the Lok Sabhas after 1952, as desired by many friends and hon. Members of this House, I propose to adjourn the House now as a mark of sorrow and respect to her memory.

AN HON. MEMBER : What about the function in the Central Hall?

MR. SPEAKER : That will be there. Of course, we have cut out all the other programmes except the speeches by the President, Vice-President, Prime Minister and myself. The cultural programme, dinner etc. have been cancelled. The programme in the Central Hall for one hour starting at 11 p.m. will be there. We will now adjourn till 11 a.m. on Wednesday.

**11.25 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 16, 1972/Sravana 25, 1894 Saka).*